

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11—फरवरी 17, 2017 (माघ 22, 1938)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11—FEBRUARY 17, 2017 (MAGHA 22, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2017

सेना शाखा

संख्या 28, दिनांक 29 दिसम्बर 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित दो (02) जैण्टलमैन कैडेट जो कि 10+2 टी ई एस- 23 पाठ्यक्रम के हैं, को 14 जून 2014 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 3/99, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है ।

आई सी- 79336वाई सवित विजय गाडेकर (आर्टी) की वरीयता आई सी- 79335डब्ल्यू अरविन्द कुमार (सिग्नल्स) के नीचे तथा आई सी- 79358एक्स विशेष कुमार (आर्टी) की वरीयता आई सी- 79357पी अपूर्व वासव (मैक इन्फैन्ट्री) के नीचे, जिसके नाम भारत सरकार के राजपत्र (भाग 1 अनुभाग 4) में दिनांक 11 अप्रैल 2015 को प्रकाशित हो चुके हैं।

निम्नलिखित 90 जेण्टलमैन कैडेट्स जो कि 10+2 टी ई एस - 27 पाठ्यक्रम के हैं, को 11 जून 2016 (पूर्वाहन) से सेना अनुदेश 3/99, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है ।

आई सी संख्या	नाम	आर्मस/सर्विस
81923	एच कुलदीप शर्मा	आर्टी
81924	एल पंकज मेहरा	एसी
81925	एन उज्जवल डागर	एओसी
81926	डब्ल्यु मनीष कुमार	इंफैन्ट्री
81927	वाई मोहित नौटियाल	सिग्नल्स
81928	एफ जुनैद अली	सिग्नल्स
81929	के दिग्विजय सिंह	इंफैन्ट्री
81930	वाई सौरभ पराशर	इंजिनियर्स
81931	एफ एम हरी हरन	ईएमई
81932	के शुभम बिल्लौरे	सिग्नल्स
81933	एम सुखजीत सिंह	सिग्नल्स
81934	पी दिवाकर बाजपयी	सिग्नल्स
81935	एक्स हनुमान घोटिया	इंजिनियर्स
81936	ए वरदान गौतम	एसी
81937	एच राज कुमार	आर्टी
81938	एल रोहित सिंह यादव	इंजिनियर्स
81939	एन रीतुल चौधरी	इंजिनियर्स
81940	एच गौरव प्रतिहार	इंफैन्ट्री
81941	एल पंकज सैनी	इंफैन्ट्री
81942	एन केशव कुमार मिश्रा	सिग्नल्स
81943	डब्ल्यु शैलेश कर्मा	सिग्नल्स
81944	वाई शिवम मल्होत्रा	इंजिनियर्स
81945	एफ निखिल बाली	ईएमई
81946	के आयूष जोशी	मैक इंफैन्ट्री
81947	एम हरमीत सिंह	ईएमई
81948	पी अभिषेक मिश्र	इंजिनियर्स
81949	एक्स धीरज सोलंकी	ईएमई
81950	एम संयम शर्मा	आर्टी
81951	पी कार्तिकेय रावत	मैक इंफैन्ट्री
81952	एक्स मुकेश कुमार ठाकुर	इंफैन्ट्री
81953	ए उमेश व्यास	सिग्नल्स

आई सी संख्या		नाम	आर्मस/सर्विस
81954	एच	सौरभ कुमार सिंह	ईएमई
81955	एल	मानिक सारस्वत	ईएमई
81956	एन	एस प्रेमदर्शन	सिग्नल्स
81957	डब्ल्यु	प्रतीक त्रिपाठी	आर्टी
81958	वाई	नितेश कुमार सोनी	सिग्नल्स
81959	एफ	सुमित	ईएमई
81960	डब्ल्यु	मोहम्मद आशिक एम	ईएमई
81961	वाई	आशीष कौशिक	ईएमई
81962	एफ	अंकित जाट्याण	सिग्नल्स
81963	के	शुभम त्यागी	सिग्नल्स
81964	एम	आशीष शर्मा	ईएमई
81965	पी	सुमित	इंफैन्ट्री
81966	एक्स	विपिन जैसवाल	एएडी
81967	ए	राम नरेश यादव	इंजिनियर्स
81968	एच	आयुष पुरोहित	इंजिनियर्स
81969	एल	अतुल	इंजिनियर्स
81970	ए	सुमित कुमार	इंजिनियर्स
81971	एच	आकाश मल्होत्रा	आर्मी एविएशन
81972	एल	नितिन कुमार	एएडी
81973	एन	विवेक कुमार	सिग्नल्स
81974	डब्ल्यु	सचिन यादव	ईएमई
81975	वाई	अंशुल नाफडे	इंजिनियर्स
81976	एफ	रसप्रीत सिंह महल	इंजिनियर्स
81977	के	विवेक यादव	इंजिनियर्स
81978	एम	दीपक चौधरी	इंजिनियर्स
81979	पी	ललित यादव	इंजिनियर्स
81980	के	तन्मय सिंह चौहान	सिग्नल्स
81981	एम	जिबिन सी विश्वनाथ	इंजिनियर्स
81982	पी	दिव्यांश पाण्डेय	ईएमई
81983	एक्स	अरुण सिंह	इंजिनियर्स
81984	ए	अखिल ए आर	ईएमई
81985	एच	तुषार त्रिवेदी	इंजिनियर्स
81986	एल	प्रशांत मलिक	मैक इंफैन्ट्री

आई सी संख्या	नाम	आर्मस/सर्विस
81987	एन	अजय कुमार
81988	डब्ल्यु	अभिजीत सिंह
81989	वाई	शिवांश
81990	एन	आबीद सोहैल
81991	डब्ल्यु	दिनेश सिंह
81992	वाई	करन वर्मा
81993	एफ	शेक मोहम्मद अशरफ अली
81994	के	अंकित
81995	एम	सिद्धार्थ जाखड़
81996	पी	सुगंध रतुडी
81997	एक्स	सागर
81998	ए	मिहू सुरेन्द्रन
81999	एच	मोहित शर्मा
82000	के	नौशाद एम ई
82001	एम	मोनु सिंह शेखावत
82002	पी	ध्रुव सहदेव
82003	एक्स	नीरज कुमार भारती
82004	ए	सुमीत भारद्वाज
82005	एच	जयदीप काले
82006	एल	राहुल छावड़ी
82007	एन	नवजोत सिंह
82008	डब्ल्यु	अतुल प्रताप सिंह
82009	वाई	युवराज केशरी सिंह
82010	एन	वर्मा आदित्य विनोद
82011	डब्ल्यु	अभिलाष पि एस
82012	वाई	तनमय शुक्ला

निम्नलिखित 04 (चार) जैण्टलमैन कैडेट्स (जी सी) जो कि 116 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) उपसर्ग लगे हुए हैं को 14 दिसम्बर 2013 (पूर्वाहन) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 14 दिसम्बर 2012 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

टी/7420 सौरभ दास (आई सी 78836 के), एएडी की वरीयता टी/7344 अविनाश सहरावत (आई सी 78835 एफ) इंजिनियर्स के नीचे, टी/7238 आमले देवीदास त्रिम्बक (आई सी 78866 एफ), इन्ट की वरीयता, टी/7449 कनोजिया भरत कल्लुलाल (आई सी 78865 वाई) इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7447 ऐश्वर्य रंजन (आई सी 78899 एम), आर्टी की वरीयता टी/7354 प्रशान्त सिंह (आई सी 78900 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री के ऊपर, टी/7435 राहुल कुमार (आई सी 78914 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7349 अनुराग कुमार (आई सी 78913एन) इंजिनियर्स के नीचे, जिनके नाम भारत के राजपत्र, भाग 1 अनुभाग 4 में प्रकाशित हो चुके हैं।

निम्नलिखित 06 (छः) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) और 22ए विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) उपसर्ग लगे हुए हैं को 13 दिसम्बर 2014 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 15 दिसम्बर 2013 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है तथा इनमें से 01 (एक) अधिकारी टी/7608 अंकित कुमार तोमर (आई सी 80177 वाई) जो कि आईसी में कमीशन हुए हैं, इन्हें सेना अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत ले0 के पद पर 13 दिसम्बर 2014 (पूर्वाह्न) से स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है, लेकिन इन्हें एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए नहीं दी जाती है।

टी/7624 साहिल अरोड़ा (आई सी 80136 पी), आर्टी की वरीयता टी/7600 सुधांशु मिश्रा (आई सी 80135एम), इंजिनियर्स के नीचे, टी/7584 प्रिंस कुमार पाठक (आई सी 80142 एच), इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7586 जतिंदर सिंह (आई सी 80141 ए), इंजिनियर्स के नीचे, टी/7593 अतुल त्यागी (आई सी 80164 एफ), ईएमई की वरीयता टी/7575 कृष्ण कुमार बेनीवाल (आई सी 80163 वाई), इंजिनियर्स के नीचे, टी/7619 शगुन राणा (आई सी 80169 ए), इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7524 एस गिरिधर (आई सी 80168एक्स), इंजिनियर्स के नीचे, टी/7585 नमन कपूर (आई सी 80170पी), इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7598 प्रियंक मलिक (आई सी 80171एक्स), आईसी के ऊपर तथा टी/7608 अंकित कुमार तोमर (आई सी 80177 वाई), आईसी की वरीयता टी/7574 गोकूल एस जी (आई सी 80176 डब्ल्यू), आईसी के नीचे, जिनके नाम भारत के राजपत्र, भाग 1 अनुभाग 4 में प्रकाशित हो चुके हैं।

निम्नलिखित 02 (दो) जैण्टलमैन कैडेट्स (जी सी) जो कि 117 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) तथा 22 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) तथा यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं को 14 जून 2014 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है तथा उन्हें 14 जून 2013 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

टी/7514 एम मनोज कुमार (आई सी 79432 एन), एएससी की वरीयता यू/1269 अभीलाष कुमार पाठक (आई सी 79431 एल), इन्फैन्ट्री के नीचे तथा यू/1295 महेशकुमार आनन्दराय भूरे (आई सी 79501 वाई), इंजिनियर्स की वरीयता टी/7548 अंकुल गुप्ता (आई सी 79500 डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री के नीचे, जिनके नाम भारत के राजपत्र, भाग 1 अनुभाग 4 में प्रकाशित हो चुके हैं।

**नियमित सेना
विशेष आयोग**

निम्नलिखित 46 जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि एस सी ओ 36 पाठ्यक्रम के हैं, को सेना अनुदेश 5/97 के अंतर्गत संलिखित सेना सेवा में 11 जून 2016 से लेफ्टिनेंट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है।

ओ टी ए सं.	सैन्य संख्या		एस सी संख्या		नाम	पैत्रक आर्मस/ सर्विस	आवंटित आर्मस/ सर्विस
एस-1180	5049808	के	01000	एम	ललित बहादुर थापा	इंफैन्ट्री	इंफैन्ट्री
एस-1219	4089474	एफ	01001	पी	पुशकर सिंह पुंदिर	इंफैन्ट्री	इंफैन्ट्री
एस-1214	14666384	एन	01002	एक्स	धर्मद्र सिंह	ईएमई	सिग्नल्स
एस-1200	5454595	वाई	01003	ए	तेज बहादुर थापा	इंफैन्ट्री	एएडी
एस-1222	15784536	एक्स	01004	एच	वेंकाटामुरेश कलवाकुरी	एपीटीसी	इंजिनियर्स
एस-1207	3408768	ए	01005	एल	हरजीत सिंह	इंट	इंफैन्ट्री
एस-1190	15704368	वाई	01006	एन	राकेश खोत	सिग्नल्स	सिग्नल्स
एस-1216	2500882	एफ	01007	डब्ल्यू	पवन कुमार	इंफैन्ट्री	आर्टी
एस-1209	15138213	वाई	01008	वाई	गुरनाम सिंह	आर्टी	आर्टी
एस-1224	15690224	एच	01009	एफ	विजय कुमार	सिग्नल्स	एसी
एस-1218	3005646	एक्स	01010	डब्ल्यू	भवानी सिंह	इंफैन्ट्री	इंफैन्ट्री

ओ टी ए सं.	सैन्य संख्या		एस सी संख्या		नाम	पैत्रक आर्मस/ सर्विस	आवंटित आर्मस/ सर्विस
एस—1195	15788960	एक्स	01011	वाई	सौरव मय दत्ता	एएडी	ईएमई
एस—1217	4007312	एक्स	01012	एफ	रणदीप सिंह	इंफैन्ट्री	आर्टी
एस—1221	14670338	डब्ल्यू	01013	के	रवि कुमार	ईएमई	आर्टी
एस—1223	2703541	एल	01014	एम	आशा राम	इंफैन्ट्री	आर्टी
एस—1181	2803669	एल	01015	पी	जाधव सचिन अशोक	इंफैन्ट्री	एसी
एस—1215	जेसी-278603	एम	01016	एक्स	राम प्रकाश सिंह	आर्टी	आर्टी
एस—1204	6395179	एल	01017	ए	दीपक परमार	एएससी	एएससी
एस—1199	13764519	के	01018	एच	धीरेन खवास	इंफैन्ट्री	इंफैन्ट्री
एस—1179	15140657	एफ	01019	एल	किरण पाटिल	आर्टी	आर्टी
एस—1202	2614842	ए	01020	ए	सूरज एस	इंफैन्ट्री	इंजिनियर्स
एस—1212	4486852	एच	01021	एच	जगतार सिंह	इंफैन्ट्री	इंफैन्ट्री
एस—1191	15139437	एल	01022	एल	माणिक घोश	आर्टी	इंफैन्ट्री
एस—1188	14845123	डब्ल्यू	01023	एन	वृजेन्द्र सिंह राजपूत	एएससी	मैक इंफैन्ट्री
एस—1206	15786718	के	01024	डब्ल्यू	लौकेन्द्र सिंह	एएडी	एओसी
एस—1182	15788528	डब्ल्यू	01025	वाई	रजनिश कुमार	एएडी	ईएमई
एस—1194	14665404	के	01026	एफ	तनमय धार	ईएमई	ईएमई
एस—1185	6947991	एल	01027	के	नामईराकपाम प्रेमचन्द्रा सिंह	एओसी	एओसी
एस—1198	2807054	एक्स	01028	एम	पाटिल विजयकुमार धन्यान्ड्यो	इंफैन्ट्री	इंफैन्ट्री
एस—1201	15489076	एम	01029	पी	गिरीजा शंकर बेहेरा	एसी	एसी
एस—1184	15687509	के	01030	के	मनोज प्रसाद	सिग्नल्स	एएडी
एस—1210	15699677	पी	01031	एम	योगेश तिवारी	सिग्नल्स	सिग्नल्स
एस—1211	14673506	पी	01032	पी	आर अविनाश रेड्डी	ईएमई	ईएमई
एस—1196	14449770	ए	01033	एक्स	मुकेश कुमार	आर्टी	आर्टी
एस—1220	4088201	एक्स	01034	ए	प्रमोद नेगी	इंफैन्ट्री	इंट
एस—1186	14938096	के	01035	एच	वेदप्रकाश सिंह	मैक इंफैन्ट्री	मैक इंफैन्ट्री
एस—1189	15684217	डब्ल्यू	01036	एल	थोकचोम प्रेमजीत सिंह	सिग्नल्स	इंजिनियर्स
एस—1141	15692132	पी	01037	एन	मोरे अजित भानुदास	सिग्नल्स	इंफैन्ट्री
एस—1205	14681938	वाई	01038	डब्ल्यू	हासिम अली	ईएमई	इंजिनियर्स

ओ टी ए सं.	सैन्य संख्या		एस सी संख्या		नाम	पैत्रक आर्मस/ सर्विस	आवंटित आर्मस/ सर्विस
एस-1192	14674558	एक्स	01039	वाई	प्रमोद कुमार तन्वर	ईएमई	ईएमई
एस-1197	9928612	एक्स	01040	एन	परमवीर सिंह	इंफैन्ट्री	एएससी
एस-1213	15207428	एल	01041	डब्ल्यू	योगिन्द्र कुमार	आर्टी	इंजिनियर्स
एस-1183	5455931	एम	01042	वाई	नारायण कुमार आले	पैरा	इंफैन्ट्री
एस-1208	6948387	एम	01043	एफ	प्रजापति अभिषेक आफतकुमार	एओसी	इंफैन्ट्री
एस-1187	15692954	एम	01044	के	सुधीर कुमार	सिग्नल्स	सिग्नल्स
एस-1203	15699705	डब्ल्यू	01045	एम	पाठक प्रशान्त चैलबहादूर	इंट	इंफैन्ट्री

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 05 (पांच) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्मस/ सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7584	प्रिंस कुमार पाठक	47781 के	ईएमई	14 जनवरी 14
टी/7585	नमन कपूर	47782 एम	सिग्नल्स	14 जनवरी 14
टी/7593	अतुल त्यागी	47790 एल	ईएमई	14 जनवरी 14
टी/7619	शगुन राणा	47814 के	ईएमई	14 जनवरी 14
टी/7624	साहिल अरोड़ा	47819 एच	ईएमई	14 जनवरी 14

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

निम्नलिखित 02 (दो) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 117 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम तथा 22 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्मस/ सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
117 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7514	एम मनोज कुमार	47419 डब्ल्यू	ईएमई	15 जुलाई 13
22 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम				
यू/1295	महेशकुमार आनन्दराय भूरे	47511 पी	ईएमई	01 जुलाई 12

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

निम्नलिखित 03 (तीन) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 116 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/ सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
116 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7420	सौरभ दास	47066 एफ	सिगनल्स	08 जनवरी 13
टी/7435	राहुल कुमार	47081 डब्ल्यू	ईएमई	14 जनवरी 13
टी/7447	ऐश्वर्य रंजन	47092 एच	सिगनल्स	17 जनवरी 13

जैण्टलमैन कैडेट्स को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट जो कि 115 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वाले को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है।

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/ सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
115 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7238	आमले देवीदास त्रिम्बक	46464 डब्ल्यू	ईएमई	10 जुलाई 12

जैण्टलमैन कैडेट को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

अभिषेक तिवारी
ले. कर्नल
ए एम एस 8 बी

सेना शाखा

सं. 29, दिनांक 30 दिसम्बर 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेना
स्थायी आयोग

निम्नलिखित 36 (छत्तीस) जैण्टलमैन कैडेट्स (जी सी) जो कि 119 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) तथा 23 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) तथा यू (प्रदर्शित यू ई एस) उपसर्ग लगे हुए हैं को 13 जून 2015 (पूर्वाहन) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है तथा इनको 15 जून 2014 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

टी/7697 सुभाष वालिया (आई सी 80743 एन) सिगनल्स की वरीयता यू/1374 अंशुमान एस बिष्ट (आई सी 80742एल) इंजिनियर्स के नीचे, टी/7683 आशीष मनराल (आई सी 80745 वाई) ईएमई की वरीयता यू/1354 नोमित शर्मा (आई सी 80744 डब्ल्यू) एसी के नीचे, यू/1338 योगेश अधिकारी (आई सी 80753एक्स) सिगनल्स की वरीयता यू/1386 करण पूनाचा एम के (आई सी 80752पी) इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7644 प्रवीण अग्रवाल (आई सी 80757एन) इन्फैन्ट्री की वरीयता यू/1342 मुदित गुरु (आई सी 80756एल) ईएमई के नीचे, टी/7649 निर्देश कुमार (आई सी 80762वाई) इन्फैन्ट्री की वरीयता यू/1372 अभिजीत सिंह भिन्डर (आई सी 80761डब्ल्यू) सिगनल्स के नीचे, टी/7678 चरनजीत सिंह (आई सी 80771ए) इन्फैन्ट्री की वरीयता यू/1328 रविश साह (आई सी 80770एक्स) इंजिनियर्स के नीचे, टी/7665 दक्ष रावत (आई सी 80780एफ) इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7634 सुनील कुमार एम जे (आई सी 80779एम) इन्ट के नीचे, टी/7668 दीपक सिंह ऐंठानी (आई सी 80781के) इंजिनियर्स की वरीयता टी/7677 गौरव शर्मा

(आई सी 80782एम) आर्टी के उपर, यू/1377 स्वप्निल अग्रवाल (आई सी 80785ए) आर्टी की वरीयता यू/1371 मन मोहन सिंह चिलवाल (आई सी 80784एक्स) इन्फैन्ट्री के नीचे, यू/1398 मृत्युंजय सिंह चौहान (आई सी 80788एन) एसीकी वरीयता टी/7684 वैभव यादव (आई सी 80789डब्ल्यू) सिगनल्स के उपर, टी/7659 विशाल कुमार राय (आई सी 80793वाई) इन्फैन्ट्री की वरीयता यू/1348 शिव भसीन (आई सी 80792डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7680 राहुल चौधरी (आई सी 80794एफ) ईएमई की वरीयता टी/7707 मनमोहन सिंह (आई सी 80795के) एविएशन के उपर, टी/7667 अजय फ्रांसिस सुरिन (आई सी 80800के) इन्फैन्ट्री की वरीयता यू/1353 भवनीत सिंह (आई सी 80799ए) एससी के नीचे, यू/1351 सागर छाबड़ा (आई सी 80804ए) सिगनल्स की वरीयता यू/1394 अभि जैन (आई सी 80801एम) मैक इन्फैन्ट्री के नीचे तथा टी/7679 मनन मेहता (आई सी 80806एल) आर्टी के उपर, टी/7696 अमर बहादुर सिंह (आई सी 80807एन) इंजिनियर्स की वरीयता टी/7679 मनन मेहता (आई सी 80806एल) आर्टी के नीचे, टी/7646 शुभम कुमार सिंह (आई सी 80814के) आर्टी की वरीयता टी/7703 प्रवीण कुमार कजागर (आई सी 80813एफ) सिगनल्स के नीचे, टी/7638 राहुल चावला (आई सी 80815एम) की वरीयता यू/1329 संजय काण्डपाल (आई सी 80816पी) इन्फैन्ट्री के उपर, टी/7694 अविनाश खटुआ (आईसी 80820एक्स) आर्टी की वरीयता टी/7636 विग्नेश्वर आर के (आई सी 80821ए) ईएमई के उपर, टी/7640 भरत वर्मा पेरिचरला (आई सी 80823एल) एएडी की वरीयता यू/1343 नवीन राणा (आई सी 80822एच) इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7692 संयम मलिक (आई सी 80824एन) सिगनल्स की वरीयता टी/7635 अखिल एस (आई सी 80825डब्ल्यू) सिगनल्स के उपर, यू/1403 अद्रिश लाल दास (आई सी 80827एफ) एएडी की वरीयता यू/1355 सुशेन स्वप्निल (आई सी 80826वाई) इन्फैन्ट्री के नीचे, यू/1364 परीक्षित सिंह (आई सी 80829एम) एससी की वरीयता यू/1334 प्रभात पाण्डे (आई सी 80828के) ईएमई के नीचे, टी/7705 अर्पित सिंह (आई सी 80833पी) इन्फैन्ट्री की वरीयता यू/1388 अंगद बीर सिंह (आई सी 80832एम) ईएमई के नीचे, यू/1380 सौरभ साजन भारती (आई सी 80836एच) इंजिनियर्स की वरीयता टी/7641 आशुतोष शर्मा (आई सी 80835 ए) ईएमई के नीचे, यू/1336 अक्षय कुमार (आई सी 80847पी) इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7685 अजित यादव (आई सी 80846एम) आर्टी के नीचे, यू/1397 जयन्त चारण (आई सी 80854एल) इंजिनियर्स की वरीयता यू/1369 गौरव ममगौई (आई सी 80853एच) सिगनल्स के नीचे, टी/7660 गिडालु गंगा प्रसाद (आई सी 80855एन) आर्टी की वरीयता टी/7701 गुरविंदर सिंह (आई सी 80856डब्ल्यू) सिगनल्स के उपर, टी/7681 विपिन शाक्या (आई सी 80858एफ) इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7648 विशाल कनौजिया (आई सी 80857वाई) एससी के नीचे, यू/1363 हर्षदीप सिंह (आई सी 80864पी) आर्टी की वरीयता टी/7689 सीएच संदीप (आई सी 80863एम) इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7645 गुरकीरत सिंह पवार (आई सी 80876के) इंजिनियर्स की वरीयता टी/7656 दिपांशू (आई सी 80875एफ) इंजिनियर्स के नीचे, यू/1410 अजय वालिया (आई सी 80878पी) एसी की वरीयता टी/7700 विष्णु राज (आई सी 80877एम) इन्फैन्ट्री के नीचे, टी/7664 हरप्रीत सिंह (आई सी 80883ए) इन्फैन्ट्री की वरीयता टी/7632 चन्द्रशेखर लटकार (आई सी 80882एक्स) एओसी के नीचे, यू/1387 सूर्याश प्रताप सिंह (आई सी 80888वाई) इंजिनियर्स की वरीयता टी/7673 अक्षय ठाकुर (आई सी 80887डब्ल्यू) सिगनल्स के नीचे, टी/7693 राफेल अखिल जोसेफ (आई सी 80896एक्स) ईएमई की वरीयता यू/1399 सुहेल शाहनवाज (आई सी 80894एम) सिगनल्स के नीचे तथा टी/7682 वैभव कुमार सिंह (आई सी 80901एक्स) ईएमई के उपर, टी/7653 अजय शर्मा (आई सी 80898एच) इंजिनियर्स की वरीयता यू/1399 सुहेल शाहनवाज (आई सी 80894एम) सिगनल्स के नीचे तथा टी/7682 वैभव कुमार सिंह (आई सी 80901एक्स) ईएमई के उपर, यू/1391 गौरव वर्मा (आई सी 80899एल) इंजिनियर्स की वरीयता यू/1399 सुहेल शाहनवाज (आई सी 80894एम) सिगनल्स के नीचे तथा टी/7682 वैभव कुमार सिंह (आई सी 80901एक्स) ईएमई के उपर, जिनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

निम्नलिखित एक जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टी जी सी) उपसर्ग लगे हुए हैं को 13 दिसम्बर 2014 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 15 दिसम्बर 2013 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम वाले को एक वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है।

टी/7580 सचिit शर्मा (आई सी 80121एम), एसी की वरीयता टी/7613 गुलशन राय (आई सी 80120के), सिगनल्स के नीचे, जिनके नाम भारत के राजपत्र, भाग 1 अनुभाग 4 में प्रकाशित हो चुके हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 36 (छत्तीस) जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 119 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) तथा 23 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को तथा सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है:-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/ सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
119 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/7638	राहुल चावला	48015ए	सिगनल्स	15 जुलाई 14

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/ सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
टी/ 7640	भरत वर्मा पेरिचरला	48017एल	ईएमई	15 जुलाई 14
टी/ 7644	प्रवीण अग्रवाल	48021 एन	सिगनल्स	15 जुलाई 14
टी/ 7645	गुरकीरत सिंह पवार	48022 डब्ल्यू	इंजिनियर्स	15 जुलाई 14
टी/ 7646	शुभम कुमार सिंह	48023 वाई	इंजिनियर्स	15 जुलाई 14
टी/ 7649	निर्देश कुमार	48926 एम	इंजिनियर्स	15 जुलाई 14
टी/ 7653	अजय शर्मा	48030 पी	इंजिनियर्स	15 जुलाई 14
टी/ 7659	विशाल कुमार राय	48036 डब्ल्यू	ईएमई	15 जुलाई 14
टी/ 7660	गिडालु गंगा प्रसाद	48037 वाई	ईएमई	15 जुलाई 14
टी/ 7664	हरप्रीत सिंह	48041एफ	ईएमई	15 जुलाई 14
टी/ 7665	दक्ष रावत	48042के	इंजिनियर्स	15 जुलाई 14
टी/ 7667	अजय फ्रांसिस सुरिन	48043 एम	इंजिनियर्स	15 जुलाई 14
टी/ 7668	दीपक सिंह ऐठानी	48044 पी	ईएमई	15 जुलाई 14
टी/ 7678	चरनजीत सिंह	48054 वाई	ईएमई	15 जुलाई 14
टी/ 7680	राहुल चौधरी	48056 के	इंजिनियर्स	15 जुलाई 14
टी/ 7681	विपिन शाक्या	48057 एम	ईएमई	15 जुलाई 14
टी/ 7683	आशीष मनराल	48059 एक्स	ईएमई	15 जुलाई 14
टी/ 7692	संयम मलिक	48068 वाई	सिगनल्स	15 जुलाई 14
टी/ 7693	राफेल अखिल जोसेफ	48069 एफ	ईएमई	15 जुलाई 14
टी/ 7694	अविनाश खटुआ	48070 डब्ल्यू	ईएमई	15 जुलाई 14
टी/ 7696	अमर बहादुर सिंह	48071 वाई	इंजिनियर्स	15 जुलाई 14
टी/ 7697	सुभाष वालिया	48072 एफ	सिगनल्स	15 जुलाई 14
टी/ 7705	अर्पित सिंह	48080ए	इंजिनियर्स	31 जुलाई 14
23 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना पाठ्यक्रम				
यू/ 1336	अक्षय कुमार	48093 एक्स	सिगनल्स	01 जुलाई 13
यू/ 1338	योगेश अधिकारी	48095 एच	सिगनल्स	01 जुलाई 13
यू/ 1351	सागर छाबरा	48108 पी	सिगनल्स	01 जुलाई 13
यू/ 1363	हर्शदीप सिंह	48120 डब्ल्यू	सिगनल्स	01 जुलाई 13
यू/ 1364	परीक्षित सिंह	48121 वाई	ईएमई	01 जुलाई 13
यू/ 1377	स्वप्निल अग्रवाल	48134 डब्ल्यू	सिगनल्स	01 जुलाई 13
यू/ 1380	सौरभ साजन भारती	48137 के	इंजिनियर्स	01 जुलाई 13
यू/ 1387	सूर्याश प्रताप सिंह	48144 ए	इंजिनियर्स	01 जुलाई 13
यू/ 1391	गौरव वर्मा	48148 डब्ल्यू	इंजिनियर्स	01 जुलाई 13
यू/ 1397	जयन्त चारण	48154 के	इंजिनियर्स	01 जुलाई 13
यू/ 1398	मृत्युंजय सिंह चौहान	48155 एम	इंजिनियर्स	01 जुलाई 13

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/ सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
यू/ 1403	अद्रिश लाल दास	48160 एक्स	इंजिनियर्स	01 जुलाई 13
यू/ 1410	अजय वालिया	48167 एफ	सिगनल्स	01 जुलाई 13

जैण्टलमैन कैडेट को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

निम्नलिखित एक जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम वालो को पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :-

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/ सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
118 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम				
टी/ 7580	सचित शर्मा	47777 एफ	ईएमई	14 जनवरी 14

जैण्टलमैन कैडेट को दिया गया आर्म/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य हैं।

प्रकाश कुमार सिंह
मेजर
ए एम एस 8 बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

संख्या 30, दिनांक 2 जनवरी 2017—राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15600-39100/- (पे बैंड-3) + रु.6600/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2015AC1019	डा. आलोक मिश्र	सी ए आई आर, बेंगलूर	31.07.2015
2015AC1002	श्री पुल्लाबहातला श्रीकान्त	डी सी डब्ल्यू एंड ई-डी आर डी ओ मुख्यालय	08.10.2015
2016AC1001	श्री अभिजीत जी	मुख्यालय-एस पी आई सी, नई दिल्ली	26.05.2016
2015AC1018	श्री मानक बाबरा	मुख्यालय-एस पी आई सी, नई दिल्ली	27.07.2015

राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15600-39100/- (पे बैंड-3) + रु. 5400/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है:-

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2014AB1002	श्री महेश कुमार	ए डी आर डी ई, आगरा	01.08.2014
2015AB1099	सुश्री युमलेमबम अदिति	ए एफ एस बी, वाराणसी	08.01.2015
2015AB1086	सुश्री बी श्रीलता	सी ई एम आई एल ए सी, बेंगलूर	07.12.2015
2015AB1097	श्री आनंद वी	सी वी आर डी ई, चेन्नई	28.12.2015
2014AB1043	श्री गौरव बलाइवार	डी ई ए एल, देहरादून	01.08.2014
2014AB1048	श्री टी गोपीनाथ	डी आई पी आर, दिल्ली	01.08.2014
2014AB1049	सुश्री ग्रीष्मा एस एम	डी आई पी आर, दिल्ली (स्थानांतरण के पश्चात् दिनांक 27.10.2014 से एन एस बी विशाखापतनम में कार्यरत हैं)	08.07.2014

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2013AB1024	श्री शम्मास् मोह्यादीन	डी आर डी एल, हैदराबाद	05.08.2013
2015AB1083	श्री आर सुरेश	जी टी आर ई, बेंगलूर	21.12.2015
2012AB1002	श्रीमति राजेश्वरी सुब्रमण्यम	एन एम आर एल, अंबरनाथ	10.12.2012
2014AB1011	श्री धीरज टाक	एस एस पी एल, दिल्ली (स्थानांतरण के पश्चात् दिनांक 23.03.2015 से आई एस एस ए, दिल्ली में कार्यरत हैं)	01.08.2014
2014AB1013	श्री आशिष जिंदल	एस एस पी एल, दिल्ली	01.08.2014
2014AB1034	श्री रूपेश कुमार	वी आर डी ई, अहमदनगर	01.08.2014

राजीव रंजन
अपर-निदेशक / कार्मिक (डी आर डी एस-II)

वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 31, दिनांक 3 जनवरी 2017—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

श्री पी. के. कपूर, उप महानिदेशक (उत्तर एवं मध्य क्षेत्र), लखनऊ, दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से मुख्यालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली में महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन के रूप में पदोन्नत किए गए।

भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

श्री पी. प्रभाकर राव, निदेशक, एसएसक्यूएजी, हैदराबाद, दिनांक 23 मार्च 2016 से उप महानिदेशक(कोरापुट) के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री सुभाष सी. शर्मा, निदेशक, मुख्यालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली, दिनांक 02 मई 2016 से मुख्यालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली में उप महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री ए. के. भट्टे, निदेशक, ओआरडीएक्यूए बैंगलूरु, दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से उप महानिदेशक (उत्तर एवं मध्य क्षेत्र), लखनऊ के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री नागराजा आर बबलेश्वर, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, ओआरडीएक्यूए (एए), किरकी, दिनांक 24 मार्च 2016 से निदेशक, ओआरडीएक्यूए, बैंगलूरु के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री इफ्तिकार अहमद, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, ओआरडीएक्यूए (जी डब्लू), हैदराबाद दिनांक 29 जून 2016 से निदेशक, ओडीडीजी (कोरापुट) के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री एच देवराजू, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, आलिस्टा, बैंगलूरु, दिनांक 01 जून 2016 से निदेशक ओआरडीएक्यूए बैंगलूरु के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री एच वी हीमन्त कुमार, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, आलिस्टा, बैंगलूरु, दिनांक 01 दिसम्बर 2016 से निदेशक मुख्यालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री के समबथ, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ओआरडीएक्यूए, बैंगलूरु, दिनांक 20 जुलाई 2016 से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II, ओआरडीएक्यूए, बैंगलूरु के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री रमन लाल, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ओआरडीएक्यूए, कानपुर, दिनांक 22 जुलाई 2016 से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II, ओआरडीएक्यूए, कानपुर के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री नागेन्द्र सिंह पुनिया, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II, ओआरडीएक्यूए, लखनऊ, दिनांक 28 नवम्बर 2016 से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, ओडीडीजी (नासिक) के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री बाबूराम यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II, ओआरडीएक्यूए (जी डब्लू), हैदराबाद, दिनांक 14 दिसम्बर 2016 से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, ओआरडीएक्यूए, लखनऊ के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री राजीव वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II, ओआरडीएक्यूए, गाजियाबाद दिनांक 18 नवम्बर 2016 से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, मुख्यालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री कोमल पदमाकर बरहाटे, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-II, ओडीडीजी (नासिक), दिनांक 30 दिसम्बर 2016 से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, ओआरडीएक्यूए (एच ए एल), हैदराबाद के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री अच्युत कुमार चौधरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, ओआरडीएक्यूए, लखनऊ, दिनांक 28 मार्च 2016 से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, ओआरडीएक्यूए, कोरवा के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री के पेरियास्वामी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी - I, आरएमसी, कोयंबटूर, दिनांक 12 मई 2016 से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, आरएमसी, कोयंबटूर के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री आर उमाशंकर, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी - I, ओआरडीएक्यूए, बेंगलुरु दिनांक 01 जून 2016 से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, ओआरडीएक्यूए, बेंगलुरु के रूप में पदोन्नत किए गए।

श्री यनामन्द्रा वेणु माधव राव, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I, ओआरडीएक्यूए (जी डब्ल्यू), हैदराबाद दिनांक 09 दिसम्बर 2016 से प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, एसएसक्यूएजी, हैदराबाद के रूप में पदोन्नत किए गए।

इंदरजीत सेठी
अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 32, दिनांक 4 जनवरी 2017—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-39871 ले0 जनरल एस के उपाध्याय, एस एम, वी एस एम, गढ़ रिफ	14.09.16
आई सी-39929 ले0 जनरल सरनजीत सिंह, वाई एस एम, सिक्ख लाई	14.09.16
आई सी-40007 ले0 जनरल वाई वी के मोहन, एस एम, वी एस एम, ग्रेन	14.09.16
आई सी-40022 ले0 जनरल ए के भट्ट, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम, 9 जी आर	01.10.16

महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-40982 ए/मेजर जनरल बिभुति भुषण, वी एस एम, (सेवानिवृत्त), ई एम ई	01.06.12 से काल्पनिक पदोन्नति परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.10.10 से दी जायेगी।

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-40982 ए/मेजर जनरल जी एस ओल, आर्टि	26.11.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 17.06.12 से दी जायेगी।

देबाशिस प्रधान
उप निदेशक
एम एस (एक्स)

थल सेना विभाग

सं. 33, दिनांक 5 जनवरी 2017—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

कवचित कोर

स्थाई रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार	अजीत कुमार यादव	(जेसी 245313पी)	*02 अक्टूबर 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	मनोज कुमार	(जेसी 245340वाई)	*06 अक्टूबर 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	हरी राज सिंह	(जेसी 245107एल)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	लाल बाबू साह	(जेसी 244693एम)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	ओम प्रकाश सिंह	(जेसी 244635एच)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	लक्ष्मण सिंह शेखावत	(जेसी 246726एल)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	गोपाल सिंह	(जेसी 246139ए)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	कुंदन कुमार	(जेसी 246221पी)	*07 नवम्बर 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	राम भारत यादव	(जेसी 246220एम)	01 अक्टूबर 2016
नायब रिसालदार	रुद्रापुरे शंकर शिवमोर्ती	(जेसी 245498एफ)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	प्रमोद कुमार सिंह	(जेसी 245178एम)	*06 सितम्बर 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अगस्त 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	अभिमन्यु सिंह	(जेसी 245170ए)	*23 अगस्त 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	गुरुपडप्पा यारागुप्पी	(जेसी 245753एच)	*01 अप्रैल 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	सेलवा कुमार के	(जेसी 245937एफ)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	दिलबाग सिंह	(जेसी 245286डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	तेहल सिंह	(जेसी 244910एक्स)	01 जुलाई 2016
नायब रिसालदार	शैतान राम इनानीयान	(जेसी 245977एच)	01 नवम्बर 2016
नायब रिसालदार	करनैल सिंह	(जेसी 244733एच)	01 फरवरी 2016

राजीव मोहन
अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

(शुद्धि पत्र)

सं. 34, दिनांक 6 जनवरी 2017—रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राजपत्र दिनांक 23 जुलाई 2016 में "नियमित सेना, स्थायी कमिशन, ब्रिगेडियर के मूल रैंक में" शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन करता है :-

के लिए

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-47286 ब्रिगेडियर यशपाल सिंह, गार्ड्स	21.03.15 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10.02.12 से दी जायेगी।

पढ़ें

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-47286 ब्रिगेडियर यशपाल सिंह, गार्ड्स	21.03.15 से ज्येष्ठता परंतु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.02.12 से दी जायेगी।

देबाशिस प्रधान
उप निदेशक
एम एस (एक्स)

सेना शाखा

(शुद्धिपत्र)

सं. 35, दिनांक 9 जनवरी 2017—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(2/ले0 के पद पर दिनांक 17 दिसम्बर 1988 से)

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग 2/लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 23 दिसम्बर 1989 को 66 टी जी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है।

के लिए	.	गुन्डाला कोदनदाल रामन	आई सी सं. — 48493के	इंजिनियर्स
पढ़ें	.	गुन्डाला कोदनदा रामन	आई सी सं. — 48493के	इंजिनियर्स

प्रकाश कुमार सिंह
मेजर
अतिरिक्त अधिकारी एम एस-8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th February 2017

(ARMY BRANCH)

No. 28, dated 29th December 2016—The President is pleased to make the following appointments:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The under mentioned Two (02) Gentlemen Cadets of 10+2 TES-23 Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 14 Jun 2014 under the provision of AI 3/99.

IC-79336Y SAVIT VIJAY GADEKAR (ARTY) seniority next below IC-79335W ARVIND KUMAR (SIGS) and IC-79358X VISHESH KUMAR (ARTY) seniority next below IC-79357P APOORV VASAV (MECH INF) whose names have been published in the Govt of India Gazette (Part I Section IV) dated 11 Apr 2015.

The under mentioned 90 (Ninety) Gentlemen Cadets of 10+2 TES-27 Course are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 11 Jun 2016 under the provision of AI 3/99.

IC No		Name	Arms/Services
81923	H	KULDEEP SHARMA	ARTY
81924	L	PANKAJ MEHARA	AC
81925	N	UJJWAL DAGAR	AOC
81926	W	MANISH KUMAR	INF
81927	Y	MOHIT NAUTIYAL	SIGS
81928	F	JUNAID ALI	SIGS
81929	K	DIGVIJAY SINGH	INF
81930	Y	SAURABH PRASHAR	ENGRS
81931	F	M HARI HARAN	EME
81932	K	SHUBHAM BILLORE	SIGS
81933	M	SUKHJEET SINGH	SIGS
81934	P	DIVAKAR BAJPAI	SIGS
81935	X	HANUMAN GHOTIYA	ENGRS
81936	A	VARDAN GAUTAM	AC
81937	H	RAJ KUMAR	ARTY
81938	L	ROHIT SINGH YADAV	ENGRS
81939	N	REETUL CHOUDHARY	ENGRS
81940	H	GAURAV PRATIHAR	INF
81941	L	PANKAJ SAINI	INF
81942	N	KESHAV KUMAR MISHRA	SIGS
81943	W	SHAILESH KARMA	SIGS
81944	Y	SHIVAM MALHOTRA	ENGRS
81945	F	NIKHIL BALI	EME
81946	K	AAYUSH JOSHI	MECH
81947	M	HARMEET SINGH	EME
81948	P	ABHISHEK MISHRA	ENGRS
81949	X	DHEERAJ SOLANKI	EME

IC No		Name	Arms/Services
81950	M	SANYAM SHARMA	ARTY
81951	P	KARTIKEYA RAWAT	MECH
81952	X	MUKESH KUMAR THAKUR	INF
81953	A	UMESH VYAS	SIGS
81954	H	SAURABH KUMAR SINGH	EME
81955	L	MANIK SARASWAT	EME
81956	N	S PREMDARSHAN	SIGS
81957	W	PRATIK TRIPATHI	ARTY
81958	Y	NEETESH KUMAR SONI	SIGS
81959	F	SUMIT	EME
81960	W	MOHAMED ASHIQ M	EME
81961	Y	ASHISH KAUSHIK	EME
81962	F	ANKIT JATAIN	SIGS
81963	K	SHUBHAM TYAGI	SIGS
81964	M	ASHISH SHARMA	EME
81965	P	SUMIT	INF
81966	X	VIPIN JAISWAL	AAD
81967	A	RAM NARESH YADAV	ENGRS
81968	H	AYUSH PUROHIT	ENGRS
81969	L	ATUL	ENGRS
81970	A	SUMIT KUMAR	ENGRS
81971	H	AAKASH MALHOTRA	AVN
81972	L	NITIN KUMAR	AAD
81973	N	VIVEK KUMAR	SIGS
81974	W	SACHIN YADAV	EME
81975	Y	ANSHUL NAFDE	ENGRS
81976	F	RASPREET SINGH MAHAL	ENGRS
81977	K	VIVEK YADAV	ENGRS
81978	M	DEEPAK CHOUDHARY	ENGRS
81979	P	LALIT YADAV	ENGRS
81980	K	TANMAY SINGH CHOUHAN	SIGS
81981	M	GIBIN C VISWANATH	ENGRS
81982	P	DIVYANSH PANDEY	EME
81983	X	ARUN SINGH	ENGRS
81984	A	AKHIL AR	EME
81985	H	TUSHAR TRIVEDI	ENGRS
81986	L	PRASHANT MALIK	MECH

IC No		Name	Arms/Services
81987	N	AJAY KUMAR	EME
81988	W	ABHIJEET SINGH	SIGS
81989	Y	SHIVANSH	ARTY
81990	N	ABID SOHAIL	SIGS
81991	W	DINESH SINGH	EME
81992	Y	KARAN VERMA	ENGRS
81993	F	SHAIK MOHAMMED ASHRAF ALI	ENGRS
81994	K	ANKIT	SIGS
81995	M	SIDDHARTH JAKHAR	EME
81996	P	SUGANDH RATURI	INF
81997	X	SAGAR	EME
81998	A	MITTU SURENDRAN	EME
81999	H	MOHIT SHARMA	EME
82000	K	NOUSHAD ME	INF
82001	M	MONU SINGH SHEKHAWAT	EME
82002	P	DHRUV SAHDEV	AC
82003	X	NIRAJ KUMAR BHARATI	ENGRS
82004	A	SUMEET BHARDWAJ	EME
82005	H	JAYDEEP KALE	INF
82006	L	RAHUL CHHAWARI	ENGRS
82007	N	NAVJOT SINGH	ENGRS
82008	W	ATUL PRATAP SINGH	ARTY
82009	Y	YUVARAJ KESHARI SINGH	SIGS
82010	N	VARMA ADITYA VINOD	INF
82011	W	ABHILASH P S	SIGS
82012	Y	TANMAI SHUKLA	ARTY

The undermentioned 04 (four) Gentleman Cadets (GCs) of 116 Technical Graduates Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 14 Dec 2013 (F/N) and are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 14 Dec 2012 under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended.

T/7420 SAURABH DAS (IC 78836K), AAD with the seniority below T/7344 AVINASH SEHRAWAT (IC 78835F), ENGRS, T/7238 AMALE DEVIDAS TRIMBAK (IC 78866F), INT with the seniority below T/7449 KANOJIYA BHARAT KALLULAL (IC 78865Y), INF, T/7447 AISHVERYA RANJAN (IC 78899M) ARTY with the seniority above T/7354 PRASHANT SINGH (IC 78900W), INF and T/7435 RAHUL KUMAR (IC 78914W), INF with the seniority below T/7349 ANURAG KUMAR (IC 78913N), ENGRS whose name has been published in Gazette of India, Part-I Section –IV.

The undermentioned 06 (six) Gentleman Cadets of 118 Technical Graduates Course (TGC), whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 13 Dec 2014 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC). They are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 15 Dec 2013 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course except one GC T/7608 Ankit Kumar Tomar (IC 80177Y) who is commissioned in AEC is granted permanent commission in the rank of Lt wef 13 Dec 2014 under AI 105/61, hence he is not granted ante date seniority.

T/7624 SAHIL ARORA (IC 80136P), ARTY with the seniority below T/7600 SUDHANSHU MISHRA (IC 80135M), ENGRS, T/7584 PRINCE KUMAR PATHAK (IC 80142H), INF with the seniority below T/7586 JATINDER SINGH (IC 80141A), ENGRS, T/7593 ATUL TYAGI (IC 80164F), EME with the seniority below T/7575 KRISHAN

KUMAR BENIWAL(IC 80163Y), ENGRS, T/7619 SHAGUN RANA (IC 80169A), INF with the seniority below T/7524 S GIRIDHAR (IC 80168X), ENGRS, T/7585 NAMAN KAPOOR (IC 80170P), INF with the seniority above T/7598 PRIYANK MALIK (IC 80171X), AEC and T/7608 ANKIT KUMAR TOMAR (IC 80177Y), AEC with the seniority below T/7574 GOKUL S G (IC 80176W), AEC whose name has been published in Gazette of India, Part-I Section-IV.

The undermentioned 02 (two) Gentleman Cadets (GCs) of 117 Technical Graduates Course and 22 University Entry Scheme Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) and 'U' (denoting UES) are granted permanent commission in the rank of Lt wef 14 Jun 14 (F/N) and they are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 14 Jun 2013 under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended for GC of TG Course and AI 2/93, as amended for GC of UES Course.

T/7514 M MANOJ KUMAR (IC 79432N), ASC with the seniority below U/1269 ABHILASH KUMAR PATHAK (IC 79431L), INF and U/1295 MAHESHKUMAR ANANDRAYA BHURE (IC 79501Y), ENGRS with the seniority below T/7548 ANKUL GUPTA (IC 79500W), INF, whose name has been published in Gazette of India, Part-I Section -IV.

REGULAR ARMY

SPECIAL COMMISSION

The under mentioned 46 (Forty Six) Gentlemen Cadets of SCO-36 Course are granted Special Commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 11 Jun 16 under the provision of AI 5/97.

OTA No	Army No	SC No	Name	Parent Arm/ Service	Arm/ Service Allotted
S-1180	5049808	K 01000	M LALIT BAHADUR THAPA	INF	INF
S-1219	4089474	F 01001	P PUSHKAR SINGH PUNDIR	INF	INF
S-1214	14666384	N 01002	X DHARMINDER SINGH	EME	SIGS
S-1200	5454595	Y 01003	A TEJ BAHADUR THAPA	INF	AAD
S-1222	15784536	X 01004	H VENKATA SURESH KALAVAKURI	APTC	ENGRS
S-1207	3408768	A 01005	L HARJEET SINGH	INT CORPS	INF
S-1190	15704368	Y 01006	N RAKESH KHOT	SIGS	SIGS
S-1216	2500882	F 01007	W PAWAN KUMAR	INF	ARTY
S-1209	15138213	Y 01008	Y GURNAM SINGH	ARTY	ARTY
S-1224	15690224	H 01009	F VIJAY KUMAR	SIGS	AC
S-1218	3005646	X 01010	W BHAWANI SINGH	INF	INF
S-1195	15788960	X 01011	Y SAURAV MOY DUTTA	AAD	EME
S-1217	4007312	X 01012	F RANDEEP SINGH	INF	ARTY
S-1221	14670338	W 01013	K RAVI KUMAR	EME	ARTY
S-1223	2703541	L 01014	M ASHA RAM	INF	ARTY
S-1181	2803669	L 01015	P JADHAV SACHHIN ASHOK	INF	AC
S-1215	JC-278603	M 01016	X RAM PRAKASH SINGH	ARTY	ARTY
S-1204	6395179	L 01017	A DEEPAK PARMAR	ASC	ASC
S-1199	13764519	K 01018	H DHIREN KHAWAS	INF	INF
S-1179	15140657	F 01019	L KIRAN PATIL	ARTY	ARTY
S-1202	2614842	A 01020	A SURAJ S	INF	ENGRS
S-1212	4486852	H 01021	H JAGTAR SINGH	INF	INF
S-1191	15139437	L 01022	L MANICK GHOSH	ARTY	INF
S-1188	14845123	W 01023	N BIRJENDRA SINGH RAJPUT	ASC	MECH

OTA No	Army No		SC No		Name	Parent Arm/ Service	Arm/ Service Allotted
S-1206	15786718	K	01024	W	LOKANDER SINGH	AAD	AOC
S-1182	15788528	W	01025	Y	RAJNISH KUMAR	AAD	EME
S-1194	14665404	K	01026	F	TANMOY DHAR	EME	EME
S-1185	6947991	L	01027	K	NAMEIRAKPAM PREMCHANDRA SINGH	AOC	AOC
S-1198	2807054	X	01028	M	PATIL VIJAYKUMAR DNYANDEO	INF	INF
S-1201	15489076	M	01029	P	GIRIJA SANKAR BEHERA	AC	AC
S-1184	15687509	K	01030	K	MANOJ PRASAD	SIGS	AAD
S-1210	15699677	P	01031	M	YOGESH TIWARI	SIGS	SIGS
S-1211	14673506	P	01032	P	R AVINASH REDDY	EME	EME
S-1196	14449770	A	01033	X	MUKESH KUMAR	ARTY	ARTY
S-1220	4088201	X	01034	A	PARMOD NEGI	INF	INT
S-1186	14938096	K	01035	H	VEDPRAKASH SINGH	MECH INF	MECH
S-1189	15684217	W	01036	L	THOKCHOM PREMJI SINGH	SIGS	ENGRS
S-1141	15692132	P	01037	N	MORE AJIT BHANUDAS	SIGS	INF
S-1205	14681938	Y	01038	W	HASIM ALI	EME	ENGRS
S-1192	14674558	X	01039	Y	PRAMOD KUMAR TANWAR	EME	EME
S-1197	9928612	X	01040	N	PARMVIR SINGH	INF	ASC
S-1213	15207428	L	01041	W	YOGIENDRA KUMAR	ARTY	ENGRS
S-1183	5455931	M	01042	Y	NARAYAN KUMAR ALEY	PARA	INF
S-1208	6948387	M	01043	F	PRAJAPATI ABHISHEK AFATKUMAR	AOC	INF
S-1187	15692954	M	01044	K	SUDHIR KUMAR	SIGS	SIGS
S-1203	15699705	W	01045	M	PATHAK PRASANT CHAILBHADUR	INT CORPS	INF

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The under mentioned 05 (five) GCs of 118 Technical Graduates Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course.

IMA No	Name	SS No		Arm/Service	Date of SSC on Probation
118 Technical Graduates Course					
T/7584	PRINCE KUMAR PATHAK	47781	K	EME	14 Jan 14
T/7585	NAMAN KAPOOR	47782	M	SIGS	14 Jan 14
T/7593	ATUL TYAGI	47790	L	EME	14 Jan 14
T/7619	SHAGUN RANA	47814	K	EME	14 Jan 14
T/7624	SAHIL ARORA	47819	H	EME	14 Jan 14

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

The under mentioned 02(two) GCs of 117 Technical Graduate Course and 22 University Entry Scheme course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their names under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GC of TG Course and AI 2/93, as amended for the GC of UES Course:-

IMA No	Name	SS No	Arm/Service		Date of SSC on Probation
117 Technical Graduates Course					
T/7514	M MANOJ KUMAR	47419	W	EME	15 JUL 13
22 University Entry Scheme Course					
U/1295	MAHESHKUMAR ANANDRAYA BHURE	47511	P	EME	01 JUL 12

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

The undermentioned 03 (three) GCs of 116 Technical Graduate Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their names under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GCs of TG Course:-

IMA No	Name	SS No	Arm/ Service	Date of SSC on Probation	
116 Technical Graduate Course					
T/7420	SAURABH DAS	47066	F	SIGS	08 JAN 13
T/7435	RAHUL KUMAR	47081	W	EME	14 JAN 13
T/7447	AISHVERYA RANJAN	47092	H	SIGS	17 JAN 13

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

The undermentioned one GC of 115 Technical Graduate Course (TGC) is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the provision of SAI 1/S/94, as amended for the GC of TG Course.

IMA No	Name	SS No	Arm/Service	Date of SSC on Probation
115 Technical Graduate Course				
T/7238	AMALE DEVIDAS TRIMBAK	46464W	EME	10 JUL 12

The Arm/ Service allotted to the GC is valid for the duration of his training only.

ABHISHEK TEWARY
Lt Col
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 29, dated 30th December 2016—The President is pleased to make the following appointments :-

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

The undermentioned 36 (Thirty Six) Gentleman Cadets (GCs) of 119 Technical Graduate Course and 23 University Entry Scheme Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) and 'U' (denoting UES) are granted permanent

commission in the rank of Lt wef 13 Jun 2015 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC) and AI 2/93, as amended (UES) and are also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 15 Jun 2014 under SAI 1/S/94, as amended for GCs TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course.

T/7697 SUBHASH WALIA (IC 80743N) SIGS with the seniority below U/1374 ANSHUMAAN S BISHT IC (80742L) ENGRS, T/7683 ASHISH MANRAL (IC 80745Y) EME with the seniority below U/1354 NOMIT SHARMA (IC 80744W) AC, U/1338 YOGESH ADHIKARI (IC 80753X) SIGS with the seniority below U/1386 KARAN POONACHA MK (IC 80752P) INF, T/7644 PRAVEEN AGRAWAL (IC 80757N) INF with the seniority below U/1342 MUDIT GURU (IC 80756L) EME, T/7649 NIRDESH KUMAR (IC 80762Y) INF with the seniority below U/1372 ABHIJEET SINGH BHINDER (IC 80761W) SIGS, T/7678 CHARANJEET SINGH (IC 80771A) INF with the seniority below U/1328 RAVISH SHAH (IC 80770X) ENGRS, T/7665 DAKSH RAWAT (IC 80780F) INF with the seniority below T/7634 SUNIL KUMAR M J (IC 80779M) INT, T/7668 DEEPAK SINGH AITHANI (IC 80781K) ENGRS with the seniority above T/7677 GAURAV SHARMA (IC 80782M) ARTY, U/1377 SWAPNIL AGARWAL (IC 80785A) ARTY with the seniority below U/1371 MAN MOHAN SINGH CHILWAL (IC 80784X) INF, U/1398 MRITYUNJAY SINGH CHOUHAN (IC 80788N) AC with the seniority above T/7684 VAIBHAV YADAV (IC 80789W), SIGS, T/7659 VISHAL KUMAR RAY (IC 80793Y) INF with the seniority below U/1348 SHIV BHASIN (IC 80792W) INF, T/7680 RAHUL CHAUDHARY (IC 80794F) EME with the seniority above T/7707 MANMOHAN SINGH (IC 80795K) AVN, T/7667 AJAY FRANCIS SURIN (IC 80800K) INF with the seniority below U/1353 BHAVNEET SINGH (IC 80799A) ASC, U/1351 SAGAR CHHABRA (IC 80804A) SIGS with the seniority below U/1394 ABHI JAIN (IC 80801M) MECH AND above T/7679 MANAN MEHTA (IC 80806L) ARTY, T/7696 AMAR BAHADUR SINGH (IC 80807N) ENGRS with the seniority below T/7679 MANAN MEHTA (IC 80806L) ARTY, T/7646 SHUBHAM KUMAR SINGH (IC 80814K) ARTY with the seniority below T/7703 PRAVEEN KUMAR KAJAGAR (IC 80813F) SIGS, T/7638 RAHUL CHAWLA (IC 80815M) INF with the seniority above U/1329 SANJAY KANDPAL (IC 80816P) INF, T/7694 AVINASH KHATUA (IC 80820X) ARTY with the seniority above T/7636 VIGNESHWER R K (IC 80821A) EME, T/7640 BHARAT VARMA PERICHARLA (IC 80823L) AAD with the seniority below U/1343 NAVEEN RANA (IC 80822H) INF, T/7692 SANYAM MALIK (IC 80824N) SIGS with the seniority above T/7635 AKHIL S (IC 80825W) SIGS, U/1403 ADRISH LAL DAS (IC 80827F) AAD with the seniority below U/1355 SUSHEN SWAPNIL (IC 80826Y) INF, U/1364 PARIKSHIT SINGH (IC 80829M) ASC with the seniority below U/1334 PRABHAT PANDEY (IC 80828K) EME, T/7705 ARPIT SINGH (IC 80833P) INF with the seniority below U/1388 ANGAD BIR SINGH (IC 80832M) EME, U/1380 SAURAV SAJAN BHARTI (IC 80836H) ENGRS with the seniority below T/7641 ASHUTOSH SHARMA (IC 80835A) EME, U/1336 AKSHAY KUMAR (IC 80847P) INF with the seniority below T/7685 AJIT YADAV (IC 80846M) ARTY, U/1397 JAYANT CHARAN (IC 80854L) ENGRS with the seniority below U/1369 GAURAV MAMGAIN (IC 80853H) SIGS, T/7660 GIDDALURI GANGA PRASAD (IC 80855N) ARTY with the seniority above T/7701 GURWINDER SINGH (IC 80856W) SIGS, T/7681 VIPIN SHAKYA (IC 80858F) INF with the seniority below T/7648 VISHAL KANAUIA (IC 80857Y) ASC, U/1363 HARSHDEEP SINGH (IC 80864P) ARTY with the seniority below T/7689 CH SANDEEP (IC 80863M) INF, T/7645 GURKIRAT SINGH PAWAR (IC 80876K) ENGRS with the seniority below T/7656 DEEPANSHU (IC 80875F) ENGRS, U/1410 AJAY WALIA (IC 80878P) AC with the seniority below T/7700 VISHNU RAJ (IC 80877M) INF, T/7664 HARPREET SINGH (IC 80883A) INF with the seniority below T/7632 CHANDRASHEKAR LATKAR (IC 80882X) AOC, U/1387 SURYANSH PRATAP SINGH (IC 80888Y) ENGRS with the seniority below T/7673 AKSHAY THAKUR (IC 80887W) SIGS, T/7693 RAPHAEL AKHIL JOSEPH (IC 80896X) EME with the seniority below U/1399 SUHAIL SHAHNAWAZ (IC 80894M) SIGS and above T/7682 VAIBHAV KUMAR SINGH (IC 80901X) EME, T/7653 AJAY SHARMA (IC 80898H) ENGRS with the seniority below U/1399 SUHAIL SHAHNAWAZ (IC 80894M) SIGS and above T/7682 VAIBHAV KUMAR SINGH (IC 80901X) EME, U/1391 GAURAV VERMA (IC 80899L) ENGRS with the seniority below U/1399 SUHAIL SHAHNAWAZ (IC 80894M) SIGS and above T/7682 VAIBHAV KUMAR SINGH (IC 80901X) EME, whose name has been published in Gazette of India.

The undermentioned one Gentleman Cadet of 118 Technical Graduates Course (TGC), whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) is granted permanent commission in the rank of Lt wef 13 Dec 2014 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC). He is also granted one year ante-date seniority for pay and promotions wef 15 Dec 2013 under SAI 1/S/94, as amended for GC of TG Course.

T/7580 SACHIT SHARMA (IC 80121M), AC with the seniority below T/7613 GULSHAN RAI (IC 80120K), SIGS whose name has been published in Gazette of India, Part-I Section-IV.

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned 36 (Thirty Six) GCs of 119 Technical Graduate Course and 23 University Entry Scheme Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy,

Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their name under the provision of SAI 1/S/94, as amended and AI 2/93, as amended for the GCs of TGC and UES Course respectively:-

IMA No	Name	SS No	Arm/Service	Date of SSC on Probation
119 Technical Graduate Course				
T/7638	RAHUL CHAWLA	48015A	SIGS	15-Jul-14
T/7640	BHARAT VARMA PERICHARLA	48017L	EME	15-Jul-14
T/7644	PRAVEEN AGRAWAL	48021N	SIGS	15-Jul-14
T/7645	GURKIRAT SINGH PAWAR	48022W	ENGRS	15-Jul-14
T/7646	SHUBHAM KUMAR SINGH	48023Y	ENGRS	15-Jul-14
T/7649	NIRDESH KUMAR	48026M	ENGRS	15-Jul-14
T/7653	AJAY SHARMA	48030P	ENGRS	15-Jul-14
T/7659	VISHAL KUMAR RAY	48036W	EME	15-Jul-14
T/7660	GIDDALURI GANGA PRASAD	48037Y	EME	15-Jul-14
T/7664	HARPREET SINGH	48041F	EME	15-Jul-14
T/7665	DAKSH RAWAT	48042K	ENGRS	15-Jul-14
T/7667	AJAY FRANCIS SURIN	48043M	ENGRS	15-Jul-14
T/7668	DEEPAK SINGH AITHANI	48044P	EME	15-Jul-14
T/7678	CHARANJEET SINGH	48054Y	EME	15-Jul-14
T/7680	RAHUL CHAUDHARY	48056K	ENGRS	15-Jul-14
T/7681	VIPIN SHAKYA	48057M	EME	15-Jul-14
T/7683	ASHISH MANRAL	48059X	EME	15-Jul-14
T/7692	SANYAM MALIK	48068Y	SIGS	15-Jul-14
T/7693	RAPHAEL AKHIL JOSEPH	48069F	EME	15-Jul-14
T/7694	AVINASH KHATUA	48070W	EME	15-Jul-14
T/7696	AMAR BAHADUR SINGH	48071Y	ENGRS	15-Jul-14
T/7697	SUBHASH WALIA	48072F	SIGS	15-Jul-14
T/7705	ARPIT SINGH	48080A	ENGRS	31-Jul-14
23 University Entry Scheme Course				
U/1336	AKSHAY KUMAR	48093X	SIGS	01-Jul-13
U/1338	YOGESH ADHIKARI	48095H	SIGS	01-Jul-13
U/1351	SAGAR CHHABRA	48108P	SIGS	01-Jul-13
U/1363	HARSHDEEP SINGH	48120W	SIGS	01-Jul-13
U/1364	PARIKSHIT SINGH	48121Y	EME	01-Jul-13
U/1377	SWAPNIL AGARWAL	48134W	SIGS	01-Jul-13
U/1380	SAURAV SAJAN BHARTI	48137K	ENGRS	01-Jul-13
U/1387	SURYANSH PRATAP SINGH	48144A	ENGRS	01-Jul-13
U/1391	GAURAV VERMA	48148W	ENGRS	01-Jul-13

U/1397	JAYANT CHARAN	48154K	ENGRS	01-Jul-13
U/1398	MRITYUNJAY SINGH CHOUHAN	48155M	ENGRS	01-Jul-13
U/1403	ADRISH LAL DAS	48160X	ENGRS	01-Jul-13
U/1410	AJAY WALIA	48167F	SIGS	01-Jul-13

The Arm/ Service allotted to the GCs is valid for the duration of their training only.

The under mentioned one GC of 118 Technical Graduates Course is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name, under the provisions of SAI 1/S/94, as amended for GC of TG Course.

IMA No	Name	SS No	Arm/ Service	Date of SSC on Probation
118 Technical Graduates Course				
T/7580	SACHIT SHARMA	47777	F EME	14 Jan 14

The Arm/ Service allotted to the GC is valid for the duration of his training only.

PRAKASH KUMAR SINGH
Maj
AMS 8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 30, dated 2nd January 2017—The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientists 'C' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of ₹15600-39100(Pay Band-3) + Grade Pay ₹6600/- :-

PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
2015AC1019	Dr. Alok Mishra	CAIR, Bengaluru	31.07.2015
2015AC1002	Shri Pullabhatla Srikanth	DCW&E, DRDO HQrs, New Delhi	08.10.2015
2016AC1001	Shri Abhijith G	HQ_SPIC, Delhi	26.05.2016
2015AC1018	Shri Manak Babra	HQ_SPIC, Delhi	27.07.2015

The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientists 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of ₹15600-39100 (Pay Band-3) + Grade Pay ₹5400/- :-

PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
2014AB1002	Shri Mahesh Kumar	ADRDE, Agra	01.08.2014
2015AB1099	Ms. Yumlembam Aditi	AFSB, Varanasi	08.01.2015
2015AB1086	Ms. B. Srilatha	CEMILAC, Bengaluru	07.12.2015
2015AB1097	Shri Anand V	CVRDE, Chennai	28.12.2015
2014AB1043	Shri Gaurav Balaiwar	DEAL, Dehradun	01.08.2014
2014AB1048	Shri T Gopinath	DIPR, Delhi	01.08.2014

2014AB1049	Ms. Grishma S M	DIPR, Delhi (Now posted to NSB, Vishakhapatnam w.e.f. 27.10.2014)	08.07.2014
2013AB1024	Shri Shammash Mohyaddin	DRDL, Hyderabad	05.08.2013
2015AB1083	Shri R Suresh	GTRE, Bengaluru	21.12.2015
2012AB1002	Smt. Rajeswari Subramaniam	NMRL, Ambernath	10.12.2012
2014AB1011	Shri Dheeraj Tak	SSPL, Delhi (Now posted to ISSA, Delhi w.e.f. 23 Mar 2015)	01.08.2014
2014AB1013	Shri Ashish Jindal	SSPL, Delhi	01.08.2014
2014AB1034	Shri Rupesh Kumar	VRDE, Ahmednagar	01.08.2014

RAJEEV RANJAN,
Addl. Director/Pers(DRDS-II)

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

No. 31, dated 3rd January 2017—The President of India is pleased to make the following promotion :-

Shri PK Kapoor, Dy Director General(N&CZ), Lucknow as Director General, Aeronautical Quality Assurance in HQ DGAQA, New Delhi w.e.f. 01 Dec 2016.

The President of India is pleased to make the following promotions :-

Shri P Prabhakar Rao, Director of SSQAG, Hyderabad as Deputy Director General (Koraput) w.e.f. 23.3.2016.

Shri Subhash C Sharma, Director of HQrs DGAQA, New Delhi as Deputy Director General in HQrs DGAQA, New Delhi w.e.f. 2.5.2016.

Shri AK Bhatte, Director of ORDAQA, Bengaluru as Deputy Director General (N&CZ), Lucknow w.e.f. 1.12.2016

Shri Nagaraja R Bableshwar, Principal Scientific Officer of ORDAQA(AA), Kirkee as Director in ORDAQA, Bengaluru w.e.f. 24.03.2016.

Shri Iftikar Ahmed, Principal Scientific Officer of ORDAQA(GW), Hyderabad as Director in ODDG(Koraput) w.e.f. 29.06.2016.

Shri H Devaraju, Principal Scientific Officer of ALISDA, Bengaluru as Director in ORDAQA, Bengaluru w.e.f. 01.06.2016.

Shri HV Heemanth Kumar, Principal Scientific Officer of ALISDA, Bengaluru as Director in HQrs DGAQA, New Delhi w.e.f. 01.12.2016

Shri K Sambath, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Bengaluru as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Bengaluru w.e.f. 20.07.2016.

Shri Raman Lal, Junior Scientific Officer of ORDAQA, Kanpur as Senior Scientific Officer Grade-II in ORDAQA, Kanpur w.e.f. 22.07.2016.

Shri Nagendra Singh Poniya, Senior Scientific Officer Grade-II of ORDAQA, Lucknow as Senior Scientific Officer Grade-I in ODDG(Nasik) w.e.f. 28.11.2016.

Shri Baburam Yadav, Senior Scientific Officer Grade-II of ORDAQA(GW), Hyderabad as Senior Scientific Officer Grade-I in ORDAQA, Lucknow w.e.f. 14.12.2016.

Shri Rajeev Verma, Senior Scientific Officer Grade-II of ORDAQA, Ghaziabad as Senior Scientific Officer Grade-I in HQrs DGAQA, New Delhi w.e.f. 18.11.2016.

Shri Komal Padmakar Barhate, Senior Scientific Officer Grade-II of ODDG(Nasik) as Senior Scientific Officer Grade-I in ORDAQA(HAL), Hyderabad w.e.f. 30.12.2016.

Shri Achyut Kumar Chowdhury, SSO-I of ORDAQA, Lucknow as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Korwa w.e.f. 28.03.2016.

Shri K Periyasamy, SSO-I of RMC, Coimbatore as Principal Scientific Officer in RMC, Coimbatore w.e.f. 12.05.2016.

Shri R Umashankar, SSO-I of ORDAQA, Bengaluru as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Bengaluru w.e.f. 01.06.2016.

Shri Yanamandra Venu Madhava Rao, SSO-I of ORDAQA(GW), Hyderabad as Principal Scientific Officer in SSQAG, Hyderabad w.e.f. 09.12.2016.

INDERJEET SETHI
Under Secy

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 32, dated 4th January 2017—The President is pleased to make Substantive promotion of Lt General to the following officers :-

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION To Be Substantive Lt General

IC NO.	RANK	NAME	ARM	DATE OF SUBS LT GEN
IC-39871	LT GEN	SK UPADHYA, SM, VSM	GARH RIF	14.09.16
IC-39929	LT GEN	SARANJEET SINGH, YSM	SIKH LI	14.09.16
IC-40007	LT GEN	YVK MOHAN, SM, VSM	GREN	14.09.16
IC-40022	LT GEN	AK BHATT, AVSM, SM, VSM	9 GR	01.10.16

The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officer:-

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBS MAJ GEN
IC-39848	BRIG	BIBHUTI BHUSHAN, VSM (RETD)	EME	Notional Promotion w.e.f. 01.05.12 with seniority from 10.10.10 without effect on pay and pension.
IC-40982	A/MAJ GEN	GS AUL	ARTY	26.11.15 with seniority from 17.06.12 without effect on pay and pension.

DEBASIS PRADHAN
Dy Dir MS (X)

ARMY BRANCH

No. 33, dated 5th January 2017—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY ARMD CORPS RECORDS

To Be RIS

NB RISALDAR (OPRAFV) AJIT KUMAR YADAV (No JC245313P) *02/10/2016

*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/10/2016 without effect on pay and allowances)

NB RISALDAR (GNRAFV) MANOJ KUMAR (No JC245340Y) *06/10/2016

*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/10/2016 without effect on pay and allowances)

NB RISALDAR (DVRAFV) HARI RAJ SINGH (No JC245107L) 01/11/2016

NB RISALDAR (DVRAFV) LAL BABU SAH (No JC244693M) 01/11/2016

NB RISALDAR (GNRAFV)	OM PRAKASH SINGH	(No JC244635H)	01/11/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	LAXMAN SINGH SHEKHAWAT	(No JC246726L)	01/11/2016
NB RISALDAR (GNRAFV)	GOPAL SINGH	(No JC246139A)	01/11/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	KUNDAN KUMAR	(No JC246221P)	*07/11/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/11/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR (DVRAFV)	RAM BHARAT YADAV	(No JC246220M)	01/10/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	RUDRAPURE SHANKAR SHIVMORTI	(No JC245498F)	01/11/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	PRAMOD KUMAR SINGH	(No JC245178M)	*06/09/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 20/08/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR (DVRAFV)	ABHIMANYU SINGH	(No JC245170A)	*23/08/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 14/08/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR (DVRAFV)	GURUPADAPPA YARAGUPPI	(No JC245753H)	*01/04/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 19/02/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR (DVRAFV)	SELVA KUMAR K	(No JC245937F)	01/11/2016
NB RISALDAR (GNRAFV)	DILBAG SINGH	(No JC245286W)	01/11/2016
NB RISALDAR (GNRAFV)	TEHAL SINGH	(No JC244910X)	01/07/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	SHATAN RAM INANIYAN	(No JC245977H)	01/11/2016
NB RISALDAR (DVRAFV)	KARNAIL SINGH	(No JC244733H)	01/02/2016

RAJEEV MOHAN
Under Secy

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

CORRIGENDUM

No. 34, dated 6th January 2017—In the Government of India, Ministry of Defence, published in the Gazette of India, New Delhi, dated 23 Jul 2016 under the heading REGULAR ARMY, PERMANENT COMMISSION, TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIER, MILITARY SECRETARY'S BRANCH is hereby amended as under:-

FOR:

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/ BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-47286	BRIG	YASHPAL SINGH	GUARDS	14.03.14	21.03.15 with seniority from 10.02.12 without effect on pay and pension.

READ:

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/ BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-47286	BRIG	YASHPAL SINGH	GUARDS	14.03.14	21.03.15 with seniority from 07.02.12 without effect on pay and pension.

DEBASIS PRADHAN
Dy Dir MS(X)

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 35, dated 9th January 2017—The President is pleased to make the following appointment:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(To be 2/Lt w.e.f 17 Dec 1988)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 66 Technical Graduate Course published in the Gazette of India dated 23 Dec 1989 under the heading of “Permanent Commission” in the rank of 2/Lt in Regular Army is here by amended as under :-

For	Gundala Kodandal Raman	IC 48493K	ENGRS
Read	Gundala Kodanda Raman	IC 48493K	ENGRS

PRAKASH KUMAR SINGH
Maj
Addl Offr MS 8B

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.4]

LAZAR
SAGAYA
RAJ

Digitally signed by
LAZAR SAGAYA
RAJ
Date: 2017.02.11
12:47:20 +05'30'